

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †5215
सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

हेरिटेज सर्किट में बारपेटा सत्र का समावेशन

†5215. श्री अब्दुल खालेक:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की सत्र नगरी बारपेटा को बढ़ावा देने की कोई योजना है;
- (ख) क्या सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बारपेटा सत्र को हेरिटेज सर्किट में शामिल करने की मांग पर विचार करने की कोई योजना है;
- (ग) यदि हां, तो इसे हेरिटेज सर्किट में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार को किसी जनप्रतिनिधि की ओर से बारपेटा को पवित्र शहर घोषित करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ.): पर्यटन मंत्रालय देश के पर्यटन गंतव्यों तथा उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाता है। इनमें 'अतुल्य भारत' ब्रांड लाइन के तहत मीडिया अभियान जारी करना, प्रचार कार्यक्रम, सोशल मीडिया प्रचार आदि शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट www.incredibleindia.org के माध्यम से बारपेटा का संवर्धन कर रहा है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना की विरासत परिपथ थीम के तहत 10 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें असम राज्य में विरासत परिपथ थीम के अन्तर्गत 90.98 करोड़ रु. से स्वीकृत 'तेजपुर-माजुली- शिबसागर का विकास' परियोजना शामिल है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी एवं जिम्मेदार गंतव्यों के विकास के लिए अब स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है। पर्यटन मंत्रालय की किसी पर्यटन स्थल को पवित्र शहर घोषित करने की कोई योजना नहीं है।
